



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/पौष 14, 1938

No. 07]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 3 जनवरी, 2017

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा खंड (ग) और धारा 12 की उप-धारा (1) तथा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में, -
  - विनियम 19ड के उप-विनियम (4) में, शब्द "उनचास" के लिए, शब्द "दो सौ" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।
  - विनियम 19च में,-
    - उप-विनियम (1) में, शब्द "केवल" का लोप हो जाएगा।

(ख) उप-विनियम (1) में, खंड (क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

"(क) जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा तारीख 17 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 180(अ) के माध्यम से जोखिम पूँजी उपक्रम (वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग) / स्टार्टअप की आयु के संबंध में जारी किए गए मानदंडों का या इस संबंध में बनाई गई ऐसी अन्य नीति (जो प्रवृत्त हो) का पालन करते हैं;"।

(ग) उप-विनियम (2) में, शब्द "पचास" के लिए, शब्द "पच्चीस" प्रतिस्थापित हो जाएगा।

(घ) उप-विनियम (3) में, शब्दों "तीन वर्षों" के लिए, शब्द "एक वर्ष" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

(ङ) उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम (6) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) एंजल निधि (एंजल फंड) भारत के बाहर निगमित कंपनियों की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में भी निवेश (विनिधान) ऐसी शर्तों या मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स) के अधीन कर सकेगी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक और बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित या जारी किए जाएँ।"

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./366/16]

#### पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/24/6573, द्वारा संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd January, 2017

### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2016

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/026.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with sub-section (1) of section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of section 11 and sub-sections (1) and (1B) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely,—

4. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016.
5. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
6. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, -
  - I. In sub-regulation (4) of regulation 19E, for the words "forty nine", the words "two hundred" shall be substituted.

**II. In Regulation 19F,-**

- (i) In sub-regulation (1), the word “only” shall be deleted.
- (ii) In clause (a) of sub-regulation (1), the words “have been incorporated during the preceding three years from the date of such investment” shall be substituted by the words “complies with the criteria regarding the age of the venture capital undertaking/startup issued by the Department of Industrial Policy and Promotion under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India vide notification No. G.S.R. 180(E) dated February 17, 2016 or such other policy made in this regard which may be in force;”.
- (iii) In sub-regulation (2), for the words “fifty”, the words “twenty five” shall be substituted.
- (iv) In sub-regulation (3), for the words “three years”, the words “one year” shall be substituted.
- (v) After sub-regulation (5), the following sub-regulation (6) shall be inserted, namely:-

“(6) An angel fund may also invest in the securities of companies incorporated outside India subject to such conditions or guidelines that may be stipulated or issued by the Reserve Bank of India and the Board from time to time.”

U. K. SINHA , Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./366/16]

**Footnote:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on 21<sup>st</sup> May, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were amended on 16<sup>th</sup> September, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.